

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2016—पौष 9, शक 1938

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-15-36-2016-दस-2.—मध्यप्रदेश सरकार, एतद्वारा व्हाइट टाइगर सफारी, जू एवं रेस्क्यू सेंटर का नाम "महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एण्ड जू, मुकुन्दपुर" के नाम से अधिसूचित करती है.

No. F 15-36-2016-X-2.—The Government of Madhya Pradesh, hereby notifies the name of White Tiger Safari, Zoo and Rescue centre as "Maharaja Martand Singh Jedeo White Tiger Safari and Zoo, Mukundpur".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.